



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

क्रमांक : 011111033
SL No :



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 307582
आवेदन सं. / Application No. : 1134/DEL/2007
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 29/05/2007
पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.V. K. JAIN 2.RAJIV SHEKHAR 3.D. S. BILGI 4.ANJALI V. KULKARNI 5.AATISH CHAVAN

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित "PROCESS FOR DRILLING CONTOURED DEEP HOLE IN SUPER ALLOYS WITH HIGH ASPECT RATIO" नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 29th day of May 2007 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled "PROCESS FOR DRILLING CONTOURED DEEP HOLE IN SUPER ALLOYS WITH HIGH ASPECT RATIO" as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 29th day of May 2007 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 19/02/2019
Date of Grant :

OKSupta
पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 29th day of May 2009 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 29th day of May 2009 and on the same day in every year thereafter.